



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 भाद्र 1941 (श10)
(सं० पटना 1009) पटना, बुधवार, 28 अगस्त 2019

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

8 अगस्त 2019

सं० 1स्था०-117/2015-1843/वि०स०—बिहार विधान सभा (भरती और सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 के नियम-14 के अधीन अध्यक्ष, बिहार विधान सभा, सभा सचिवालय में समूह-ख के अंतर्गत प्रशासनिक संवर्ग के प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा के पाठ्यक्रम एवं विषय आदि के विनियम के संबंध में निम्नलिखित आदेश विनिर्दिष्ट करते हैं :-

बिहार विधान सभा सचिवालय (विभागीय परीक्षा की पद्धतियाँ) आदेश, 2019

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - यह आदेश बिहार विधान सभा सचिवालय (विभागीय परीक्षा की पद्धतियाँ) आदेश, 2019 कहा जा सकेगा ।
2. यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।
3. बिहार विधान सभा सचिवालय में समूह 'ख' के अंतर्गत प्रशासनिक संवर्ग के प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं विषय वहीं होगी जो नीचे वर्णित है :-

प्रथम पत्र- बिहार विधान सभा सचिवालय (भरती और सेवा शर्तें) नियमावली, 2018, बिहार सेवा संहिता, पेंशन रूल्स, कोषागार संहिता एवं वित्तीय नियमावली ।

द्वितीय पत्र- टिप्पण एवं प्रारूपण ।

तृतीय पत्र - भारत का संविधान, बिहार विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, सरकारी यात्रा भत्ता नियमावली, सदस्यों के वेतन एवं भत्ता नियमावली ।

प्रत्येक पत्र का पूर्णांक 100 (एक सौ) अंकों का होगा तथा उत्तीर्णांक 40 (चालीस) अंकों का होगा । परंतु अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति उम्मीदवार के लिए उत्तीर्णांक 30 अंकों का होगा ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
बटेश्वर नाथ पाण्डेय,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1009-571+25-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>